

01 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त मनीष यादव पुत्र स्व० राजेन्द्र यादव निवासी पुसमा भट्टा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया हालमुकाम ट्यूबवेल कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु०अ०सं० 596 / 2020 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी पुलिस चौकी गोला बाजार उ०नि० श्रीमती प्रतिभा सिंह मय हमराह।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 540 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 02 अभियुक्त नाम पता – 1 –लक्ष्मी नारायण वर्मा पुत्र केदई वर्मा 2- पंकज शर्मा पुत्र दिग्विजय नारायण शर्मा निवासीगण नायक टोला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 240 रुपये मालफड़, 300 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु०अ०सं० 292 / 2020 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ०नि० श्री रामनाथ यादव, का० लल्लन पासवान, का० संदीप कुमार।

आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा अभियुक्त रामशंकर वर्मा पुत्र तेजई वर्मा निवासी पश्चिम टोला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु०अ०सं० 291 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

घर मे घुसकर मारपीट करने व जानमाल की धमकी के मामले मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 382 / 2020 धारा 147 / 148 / 323 / 452 / 504
/ 506 / 336 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता शशिभूषण पुत्र चन्द्रशेखर निवासी महला
थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर व मु0अ0सं0 383 / 2020 धारा 147 / 148 / 308 /
452 / 324 / 323 / 504 / 506 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता सुरेश यादव पुत्र स्व0
राजकिशोर यादव निवासी महला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर
माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी पुलिस चौकी बखिरा उ0नि0 श्री
रणविजय सिंह मय हमराह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 11 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2548 द्वारा दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी
2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 08981 से कालर ने मार्ग
दुर्घटना होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 02 मिनट
में घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को जरिए एंबुलेंस से जिला
अस्पताल भेजवाया गया तथा इस संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत

कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आरक्षी रमेश सिंह यादव, हो०चा० विरेन्द्र चौधरी।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनो से 72800 रु० सम्मन शुल्क
वसूल किया गया**

आज दिनांक 14-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनो से 72800 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।